

प्रेस नोट

दिनांक 28.07.2022

सराहनीय कार्य थाना अमेठी

**07 चोरियों का खुलासा, 01 अदद अवैध तमंचा, 01 अदद कारतूस 12 बोर, 01 स्पिलिट एसी, 01 अदद इन्वर्टर, 01 अदद बैट्री, 01 ब्लोवर, 01 अदद रूम हीटर, 8900 रुपए नगद, 04 अदद मोबाइल फोन आदि के साथ 06 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।**

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना अमेठी उमाकान्त शुक्ला मय हमराह द्वारा तलाश वांछित व देखभाल क्षेत्र चेंकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 मोटरसाइकिल व 01 स्विफ्ट डिजायर कार पर सवार 06 नफर अभियुक्त **(मोटरसाइकिल सवार)** 1.मुकेश यादव पुत्र शमशेर यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी भरथीपुर थाना व जनपद अमेठी, 2.मोनू सरोज पुत्र शम्भू लाल उम्र करीब 20 वर्ष नि0 छोटा रामनाथपुर थाना व जनपद अमेठी, **(कार सवार)** 3.दिलीप कुमार पुत्र रामखेलावन उम्र करीब 23 वर्ष नि0 झाखरकट्टा थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी, 4.साहिल सरोज पुत्र प्रेम सरोज उम्र करीब 18 वर्ष नि0 रायपुर फुलवारी थाना व जनपद अमेठी, 5.राहुल यादव पुत्र ओमप्रकाश नि0 पूरे बाबा भद्वौर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी, 6.सिद्धान्त मौर्या पुत्र रघुनाथ उम्र करीब 18 वर्ष नि0 कटरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ हालपता ककवा रोड कस्बा व थाना अमेठी जनपद अमेठी को धम्मौर रोड महिला पॉलीटेक्निक के पास से समय करीब 06:50 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त मोनू सरोज के कब्जे से 01 तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ तथा **कार की तलाशी से 01 अदद इन्वर्टर, 01 अदद बैट्री, 01 सेटअप बॉक्स, 01 रूम हीटर, 01 रूम ब्लोवर, 01 वाटर आरओ, 01 स्पिलिट एसी, 01 स्टेब्लाइजर, 01 टीवी, 01 एलईडी टीवी, रुपए 8900/- नगद व 04 अदद मोबाइल फोन बरामद हुआ ।** थाना अमेठी द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग पिछले **दो-तीन माह से लेकर अब तक कुल 07 चोरियां की** हैं जिनमें से **पहली** लगभग तीन माह पहले बघवरिया गांव के पास लोहे की दुकान में चोरी किये थे, **दूसरी** लगभग दो माह पहले गोपालपुर गांव में एक घर में लगभग 90 हजार रुपए नगद व कुछ जेवर चोरी किये थे, **तीसरी** लगभग दो माह पहले रामनाथपुर हनुमत नगर के एक घर ले 30 हजार रुपये नगद, 01 लैपटॉप व 04 अदद मोबाइल चोरी किये थे, **चौथी** ग्राम संडीला में एक घर से 10 हजार रुपये व कुछ जेवर चोरी किये थे, **पांचवी** महमूद नगर में किये थे, **छठवीं** लगभग एक माह पूर्व व **सातवीं** 06-07 दिन पूर्व आवास विकास कालोनी में किये थे जिसमें 25 हजार नगद व जेवर मिले थे । **लगभग डेढ़ माह पूर्व हम लोग नौगिरवां बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी का प्रयास किये थे लेकिन कोई सामान चोरी नहीं कर पाये थे ।** चोरी करने में हम लोग इसी मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर संख्या यूपी 36 एन 8772 व कार स्विफ्ट डिजायर संख्या यूपी 16 एजे 8418 का प्रयोग करते हैं व चोरी का सामान इसी कार व मोटरसाइकिल पर लादकर ले जाकर छुपा देते थे व बाद में बेच देते थे । इन चोरियों में हमारा एक अन्य साथी मोनू यादव भी शामिल है । लैपटॉप व जेवर मोनू यादव अपने पास बेचने के लिए रखा है । बरामद सामान उन्हीं चोरियों के हैं ।

**चोरी करने का तरीका-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि जिन घरों में कोई नहीं होता है उन घरों की रेकी करके हमलोग चोरी करते हैं ।

**गिरफ्तारी स्थान** धम्मौर रोड महिला पॉलीटेक्निक के पास **समय** 06:50 प्रातः **दिनांक** 28.07.2022

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

1. मुकेश यादव पुत्र शमशेर यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी भरथीपुर थाना व जनपद अमेठी ।
2. मोनू सरोज पुत्र शम्भू लाल उम्र करीब 20 वर्ष नि0 छोटा रामनाथपुर थाना व जनपद अमेठी
3. दिलीप कुमार पुत्र रामखेलावन उम्र करीब 23 वर्ष नि0 झाखरकट्टा थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी
4. साहिल सरोज पुत्र प्रेम सरोज उम्र करीब 18 वर्ष नि0 रायपुर फुलवारी थाना व जनपद अमेठी
5. राहुल यादव पुत्र ओमप्रकाश नि0 पूरे बाबा भद्वौर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी
6. सिद्धान्त मौर्या पुत्र रघुनाथ उम्र करीब 18 वर्ष नि0 कटरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ हालपता ककवा रोड कस्बा व थाना अमेठी जनपद अमेठी

## वांछित अभियुक्त-

- मोनू यादव पुत्र शम्भूनाथ नि० रामनाथपुर थाना व जनपद अमेठी ।

## बरामदगी-

1. 01 तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद ।
2. 01 अदद इन्वर्टर
3. 01 अदद बैट्रा
4. 01 सेटअप बॉक्स
5. 01 रूम हीटर
6. 01 रूम ब्लोवर
7. 01 वाटर आरओ
8. 01 स्पिलिट एसी
9. 01 स्टेब्लाइजर
10. 01 एलईडी टीवी
11. रुपए 8900/- नगद
12. 04 अदद मोबाइल फोन

## पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु०अ०सं० 137/22 धारा 457,380,411भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
2. मु०अ०सं० 163/22 धारा 457,380,411भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
3. मु०अ०सं० 165/22 धारा 457,380,411भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
4. मु०अ०सं० 170/22 धारा 457,380,411भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
5. मु०अ०सं० 191/22 धारा 457,380,411भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
6. मु०अ०सं० 195/22 धारा 457,380,411भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
7. मु०अ०सं० 240/22 धारा 457,380,411भादवि थाना व जनपद अमेठी ।
8. मु०अ०सं० 248 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना व जनपद अमेठी ।
9. मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर संख्या यूपी 36 एन 8772
10. कार स्विफ्ट डिजायर संख्या यूपी 16 एजे 8418

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक उमाकान्त शुक्ला थाना व जनपद अमेठी ।
2. उ०नि० प्रमोद कुमार थाना व जनपद अमेठी ।
3. का० अरुण यादव थाना व जनपद अमेठी ।
4. का० नरेन्द्र कुमार थाना व जनपद अमेठी ।
5. का० शैलेन्द्र यादव थाना व जनपद अमेठी ।
6. का० शिवम् सिंह राठौर थाना व जनपद अमेठी ।
7. का० सचिन प्रजापति थाना व जनपद अमेठी ।